

# BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office: 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur - 302 006, Ph.: 9214018877  
CIN: L45201RJ1995PLC010646, Website: [www.bflfin.com](http://www.bflfin.com), E-mail: [bfldevelopers@gmail.com](mailto:bfldevelopers@gmail.com)

Ref. No.: BFL/2024-25/44

Date: August 10, 2024

To,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street  
Mumbai-400001 (Maharashtra)

Scrip Code: 539662

Sub.: Newspaper Advertisement for the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Newspaper Advertisement of Public Notice published in newspapers "Nafa Nuksan" (Daily newspaper of the State) and "Financial Express" (National daily newspaper) on **Saturday, August 10, 2024** informing, inter alia, about the following:

- 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on **Thursday, September 26, 2024 at 3:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means;
- Manner of dispatch of 29<sup>th</sup> AGM notice and Annual report and registering/updating e-mail address and/or bank account details; and
- Manner for casting vote(s) through e-voting.

The same has been made available on the Company website at [https://www.bflfin.com/?page\\_id=19#tab-id-11](https://www.bflfin.com/?page_id=19#tab-id-11)

You are requested to take the above on records.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For BFL ASSET FINVEST LIMITED

  


ILMA SUZA  
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER  
MEMBERSHIP NUMBER: A70063

Encl: A/a

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2024 are available on the Company's website ([www.acmills.in](http://www.acmills.in)) and on the websites of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) & NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com))

For Ambika Cotton Mills Limited

Place : Coimbatore  
Date : 09.08.2024

S/d  
P.V.Chandran  
Chairman & Managing Director  
DIN:00628479

## SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L31900GJ2011PLC064420

Regd. Office: Milestone 87, Vadodara-Halol Highway, Village Kotambli, Post Office Jarod, Vadodara 391 510, Gujarat, India  
Phone: 02668 664466 / 664300, Fax: 02668 664621  
Website: <https://infra-in.se.com/>; Email: [company.secretary@schneider-electric.com](mailto:company.secretary@schneider-electric.com)



### NOTICE TO THE MEMBERS – FOURTEENTH (14<sup>TH</sup>) ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Fourteenth (14<sup>th</sup>) Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of Schneider Electric Infrastructure Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 3, 2024 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM dated May 23, 2024 ("Notice").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (Collectively referred to as "Relevant Circulars"), have granted permission for holding the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM only, as per the scheduled date and time.

#### Members are informed that:

- The Notice and Annual Report for financial year 2023-24 ("Annual Report") have been sent only through electronic mode to those Members only whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participant(s) ("DPs") as on Friday, August 2, 2024, in accordance with the Relevant Circulars. The electronic dispatch of the Notice and Annual Report has been completed on August 9, 2024.
- The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at <https://infra-in.se.com/>, the website of the BSE Limited ("BSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), The National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com>.
- In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Relevant Circulars and Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFinTech") to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically through remote e-Voting prior to AGM and e-Voting during the AGM. Members who have cast their votes by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The remote e-Voting facility before the date of the AGM will be available during the following voting period (both days inclusive):

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Commencement of remote e-Voting | From 9:00 a.m. (IST) on Saturday, August 31, 2024 |
| End of remote e-Voting          | Upto 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 2, 2024 |

The remote e-Voting module shall be disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period and hence, remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting before or at the AGM are provided in the Notice, which is also available on the Company's website.

- A person whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, August 27, 2024 ("Cut-off Date") shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM. Any person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purpose only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company on the said Cut-off Date. Any person holding shares in physical mode or who acquires shares and becomes a member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice and holds shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or to RTA at [subhabrata@cbmsl.co](mailto:subhabrata@cbmsl.co). However, if you are already registered with KFinTech for e-Voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 28, 2024 to Tuesday, September 3, 2024 (both days inclusive).
- Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner, failing him, Mr. Shashikant Tiwari, Partner, Chandrasekaran Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process and e-Voting during the Meeting, in a fair and transparent manner.
- The relevant documents pertaining to the item of business to be transacted at the AGM are available for inspection electronically and shall remain open for inspection at the AGM.
- The voting results of the AGM along with the report of the Scrutinizer shall be declared as per the statutory timelines and will be placed on the website of the Company <https://infra-in.se.com/>, stock exchanges i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on KFinTech's website at <https://evoting.kfintech.com>.
- In case of any queries/grievances related to e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting User Manual available at the "download" section of <https://evoting.kfintech.com> or reach out to Mr. SV Raju, Deputy Vice President at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or call KFinTech on toll free no.1800 345 4001.
- Members are requested to further address the queries/grievances, if any to [company.secretary@schneider-electric.com](mailto:company.secretary@schneider-electric.com).

For detailed instructions and procedure on participation at the AGM, manner of remote e-Voting and e-Voting during the AGM, please refer to the Notice.

By Order of the Board  
For Schneider Electric Infrastructure Limited  
Sd/-  
Udai Singh  
Managing Director and Chief Executive Officer

Date: August 9, 2024  
Place: Gurugram

Building No. 53E, Zone - 5, Road SE, Gift City, Gandhinagar - 382355  
Corporate Office : Marwadi Financial Plaza, Nana Maya Main Road, Off 150 Feet Ring Road, Rajkot-360001. Email : [inquiry@marwadionline.in](mailto:inquiry@marwadionline.in), Phone : 0281-7174000 / 6192000

### STANDALONE FINANCIAL RESULTS

(Regulation 52 (B), read with Regulation 52 (A) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LOOR Regulations))

| Sr. No. | Particulars  | Quarter Ended          |                        | Year Ended |
|---------|--|------------------------|------------------------|------------|
|         |  | 30.06.2024 (Unaudited) | 30.06.2023 (Unaudited) |            |
| 1       | Total Income from Operations   | 23,472.68              | 11,163.92              | 70,588.53  |
| 2       | Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)  | 15,338.18              | 6,026.56               | 44,141.53  |
| 3       | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 15,338.18              | 6,026.56               | 44,141.53  |
| 4       | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 11,447.48              | 4,496.79               | 32,562.18  |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 11,447.48              | 4,496.79               | 32,562.18  |
| 6       | Paid up Equity Share Capital   | 10,997.25              | 997.25                 | 10,997.25  |
| 7       | Reserves (excluding Rationalsation Reserve)  | 97,056.27              | 57,527.75              | 85,608.84  |
| 8       | Securities Premium Account   | 1,603.37               | 1,603.37               | 1,603.37   |
| 9       | Net Worth  | 108,053.51             | 59,525.00              | 96,606.09  |
| 10      | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt*   | 49,800.00              | 20,000.00              | 49,800.00  |
| 11      | Outstanding Redeemable Preference Shares   | 10,000.00              | NA                     | 10,000.00  |
| 12      | Debt Equity Ratio  | 0.88                   | 0.98                   | 1.00       |
| 13      | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)   |                        |                        |            |
|         | 1. Basic :   | 114.79                 | 45.09                  | 326.52     |
|         | 2. Diluted :   | 114.79                 | 45.09                  | 326.52     |
| 14      | Capital Redemption Reserve   | 439.64                 | 439.64                 | 439.64     |
| 15      | Debtenture Redemption Reserve  | 4,980.00               | 2,000.00               | 4,980.00   |
| 16      | Debt Service Coverage Ratio  | 0.29                   | 0.13                   | 0.67       |
| 17      | Interest Service Coverage Ratio  | 6.27                   | 5.29                   | 6.22       |

#### Notes:

- \*Paid up Debt Capital represents debt raised through issue of debentures.
- The above is an extract of the detailed format of standalone quarterly financial results filed with the BSE Limited under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the standalone quarterly financial results is available on the website of the BSE Limited and Marwadi Shares and Finance Limited (<https://www.marwadionline.com>).
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed at (<https://www.bseindia.com/>). For, Marwadi Shares and Finance Limited

Place : Rajkot  
Date : 18.08.2024

Sd/-  
Mr. Ketan H. Marwadi  
Managing Director  
DIN : 00088018

### BFL ASSET FINVEST LIMITED

Regd. Office : 1, Taranagar, Ajmer Road, Jaipur-302006 • Ph: 9214018877

E-mail : [bfldevelopers@gmail.com](mailto:bfldevelopers@gmail.com) • Website : [www.bflfin.com](http://www.bflfin.com) • CIN: L45201RJ1995PLC010646

#### Information to the Members Regarding 29th Annual General Meeting to be held over Video Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OAVM")

- The 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, September 26, 2024 at 03:00 P.M. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("ACT") and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and earlier circulars issued in this regards from time to time by the Ministry of Corporate Affairs, (collectively referred to as "MCA Circulars"), and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/PI/2023/120 dated July 11, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the business as set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend AGM through VC/OAVM only. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
- In compliance with the MCA circulars and SEBI circulars, the Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2023-24, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose name appears in the register of member as on Friday, August 23, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at [www.bflfin.com](http://www.bflfin.com), website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). No physical copies will be dispatched to the members.

#### 3. Manner of Registering/ updating email addresses:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Physical Holding       | Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address and/or bank account details are requested to register/update their aforesaid details by submitting form ISR-1 duly filled and signed along with requisite supporting documents to MCS Share Transfer Agent Limited, the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020. The aforesaid forms can be accessed from the website of the RTA at <a href="https://www.mcsregistrars.com/downloads.php">https://www.mcsregistrars.com/downloads.php</a> |
| Dematerialized Holding | Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with the Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.  |

#### 4. Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system ("e-voting").

The manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM. The details will also be available on the website of the Company at [www.bflfin.com](http://www.bflfin.com). In case of queries, members are requested to write to RTA at [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com).

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the relevant circulars.

Place: Jaipur  
Date: 9 August, 2024

Sd/-  
Mahendra Kumar Baid  
Managing Director (DIN: 00009828)



# Super Luxury Villas का क्रेज



डिमांड ज्यादा देखने में आ रही है।

गोवा सैकंड होम के लिए प्राइम डेस्टिनेशन के रूप में इमर्ज हो रहा है। इसलिये लग्जरी डवलपमेंट देखे जा रहे हैं। उनके अनुसार चालू वर्ष की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि वे गोवा में विला कम्प्यूनिटी में प्रवेश कर रहे हैं। यह डीएलएफ का पहला सुपर लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जो कि एनसीआर के बाहर है।

सन एस्टेट्स डवलपर्स ने वर्ष 2000 में गेटेड विला ट्रेड की शुरुआत की थी और अभी तक क्रिकेट और बॉलीवुड के लिये लग्जरी होम प्रोवाइड कर चुके हैं। वर्तमान में इस्पावा गोवा में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इस्पावा ग्रुप के फाउंडर और सीओओ ने कहा है कि इस

कैटेगरी का बायर स्पेस या लोकेशन पर समझौता नहीं करता है। अल्ट्रा एचएनआई गोवा में पचास करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी आराम से ले लेता है और फैसिलिटीज कम है तो समझौता नहीं करता। डिमांड और सप्लाय मिसमैच के कारण फिलहाल इस सेगमेंट में रेडी-टू-मूव इन्वेंट्री नहीं है।

गोवा की बात करें तो रिच इंडियंस के लिये वेकेशन होम्स के लिये इन्वेस्टमेंट का टॉप ऑप्शन है। सुथबे इंटरनेशनल रियलिटी लग्जरी आउटलुक सर्वे 2024 के अनुसार 35 प्रतिशत हॉलीडे होम बायर्स ने कहा कि गोवा को वे सैकंड होम डेस्टिनेशन के रूप में प्राथमिकता देते हैं। वैल्डी इंडियंस की टॉप चाइस गोवा में अल्ट्रा लग्जरी विला लेना है।

## ईटी क्षेत्र में हायरिंग में 5% वृद्धि की संभावना



ईएजेंसी। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियां धीरे-धीरे सुस्ती के दौर से बाहर आ रहे हैं और अपनी भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। इसे देखते हुए अगले साल तक आईटी में 8.5 प्रतिशत नौकरियां बढ़ने का अनुमान जाँव मुहैया कराने वाले ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रेड की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में यह मान जताया गया। इसके मुताबिक, गत वर्ष फ्राइबर और इस साल की शुरुआत में सुस्ती ग्राद स्किल्ड आईटी टैलेंट की मांग बढ़ रही अगले वर्ष तक इस क्षेत्र के भीतर नौकरी भूमिकाओं में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के। नियुक्तियों में तेजी आने की संभावना है। इनडीड का यह आंकड़ा इनडीड हायरिंग और उसके मंच पर उपलब्ध आंकड़ों से

### बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1, नारायण, अक्षय रोड, जयपुर-302006, फोन : 9214018877  
Email : bfldevelopers@gmail.com • Website : www.bflfin.com • CIN: L45201RJ1995PLC010648  
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित होने वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 29वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुकवार, 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 03:00 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") से आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और नियमों को लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 और कॉर्पोरेट मापकों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए पिछले परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) और मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 एवं 07 अक्टूबर, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/PICIR/2023/167 के साथ पढ़ा जाए जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सामूहिक रूप से सेबी परिपत्रों के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किया है। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग ले सकेंगे। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम की गणना को उद्देश्य से गिना जाएगा।
- एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों की अनुपालना में, कंपनी की एजीएम का नोटिस, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंकीकृत वित्तीय परिणामों के साथ ही निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकीकृतों की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज कंपनी को उन सभी सदस्यों को उनके ई-मेल पते पर भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते शुकवार 23 अगस्त 2024 तक कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को यहाँ पंजीकृत हैं। उक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट [www.bflfin.com](http://www.bflfin.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएमएल) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों को इनकी भौतिक प्रति नहीं भेजी जायेगी।
- ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया:

|                        |  |
|------------------------|--|
| भौतिक होल्डिंग         | भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता और/या बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके उपरोक्त विवरण एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को एफ-65, पहली मंजिल, आंखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1 न्यू दिल्ली 110020 में जमा कर अपना पंजीकरण/अपडेट करें। उपरोक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट <a href="https://www.mcsregistrars.com/downloads.php">https://www.mcsregistrars.com/downloads.php</a> पर देखे जा सकते हैं। |
| अभौतिक/डिजिटल होल्डिंग | डिजिटल रूप में कंपनी को शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराए हैं, उनसे निवेदन है कि वह उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करा लें जहाँ उनके डिजिटल खाते हैं।   |

- ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने की प्रक्रिया:  
कंपनी की एजीएम के नोटिस में शामिल व्यवसायों पर वोट डालने के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम (ई-वोटिंग) के जरिए उनका वोट डालने का अवसर मिलेगा। डिजिटल रूप में भौतिक रूप में कंपनी को शेयर रखने वाले सदस्यों एवं ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने से संबंधित प्रक्रिया का विवरण कंपनी की एजीएम के नोटिस में दिया गया है। यह विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://www.bflfin.com> पर भी उपलब्ध है। इस संबंध में किसी प्रकार का संचार/शिकायत के लिए सदस्य कंपनी को आरटीए को ई-मेल पते [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) पर लिख सकते हैं। उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए तथा संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

बालू-बीएफएल एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड  
हस्ता./-  
महेश कुमार बंद  
स्थान : जयपुर  
दिनांक : 9 अगस्त, 2024  
प्रबन्ध निदेशक (DIN: 00009828)



## मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं फ़ैक्ट्री : जयपुर सोकर रोड, गांव जैतपुर, तहसील चौम, जिला जयपुर, 303704 (राजस्थान) भारत  
वेबसाइट : [www.mayuruniquoteers.com](http://www.mayuruniquoteers.com) ईमेल : [secr@mayur.biz](mailto:secr@mayur.biz) टेलीफोन : 91-1423-224001  
फैक्स : 91-1423-224420 सीआईएन : एल18101आरजे1992पीएलसी006952

### सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों द्वारा आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

#### प्रिय सदस्यों,

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 14 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा समान स्थान पर सदस्यों की भौतिक मौजूदगी के बगैर आयोजित की जायेगी जो कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों व संबंधित नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और खुलासा आवश्यकताएँ) नियम, 2015 के नियमों एवं कंपनी मामलात मंत्रालय द्वारा जारी (एमसीए परिपत्र) आम परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 समेत पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक 11 जुलाई 2023 के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD/PoD-2/PICIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में है।

उक्त परिपत्रों की अनुपालना के तहत कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना व 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों समेत वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल आईडी शुकवार 16, अगस्त 2024 को कंपनी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंसी (आरटीए) व संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के यहाँ पंजीकृत हैं। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए ही 31वीं वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। सदस्यों (भौतिक रूप में कंपनी के शेयर रखने वाले सदस्यों समेत या जिनके ई-मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के यहाँ